



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1939 (श10)  
(सं0 पटना 751) पटना, शुक्रवार, 25 अगस्त 2017

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2017

सं० 11न०वि०/(मा०प्लान)-13/2014-739-न० वि० एवं आ० वि०—बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-11 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्वारा बोधगया आयोजना क्षेत्र का महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य विधिपूर्ण कारवाई के लिए आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो “बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार” के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा : —

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| (i) प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया  | — | अध्यक्ष    |
| (ii) जिलाधिकारी, गया  | — | उपाध्यक्ष  |
| (iii) मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन या उनका प्रतिनिधि,   | — | सदस्य      |
| (iv) नगर आयुक्त, नगर निगम, गया  | — | सदस्य      |
| (v) उप विकास आयुक्त, गया  | — | सदस्य      |
| (vi) अपर समाहर्ता (राजस्व), गया   | — | सदस्य      |
| (vii) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गया   | — | सदस्य      |
| (viii) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, गया                    | — | सदस्य      |
| (ix) सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गया  | — | सदस्य      |
| (x) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया   | — | सदस्य      |
| (xi) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनधिक वैसे व्यक्ति जिन्हें नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, | — | सदस्य      |
| (xii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोधगया आयोजना क्षेत्र प्राधिकार,   | — | सदस्य सचिव |

उपरोक्त उपकंडिका (xi) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे।

2. अनुमण्डल पदाधिकारी, गया, इस आयोजना प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी— सह—सदस्य सचिव होंगे। तत्काल अनुमण्डल पदाधिकारी, गया का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा।

3. यह प्राधिकार अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से।

चैतन्य प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।

*The 21<sup>st</sup> August 2017*

No.-11न०वि०/(मा०प्लान)-13/2014-740-UD&HD—in exercise of the powers conferred by Section - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Govt. of Bihar, to prepare Master Plan and other Development Plans of Bodhgaya Planning Area, its implementation and for other lawful actions, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as “**Bodhgaya Planning Area Authority**” and it shall be constituted consisting of the followings :-

- |        |  |   |                  |
|--------|--|---|------------------|
| (i)    | Divisional Commissioner, Magadh Division, Gaya   | - | Chairman         |
| (ii)   | District Magistrate, Gaya  | - | Vice Chairman    |
| (iii)  | Chief Town Planner or representative,<br>Town and Country Planning Organisation  | - | Member           |
| (iv)   | Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Gaya  | - | Member           |
| (v)    | Deputy Development Commissioner, Gaya  | - | Member           |
| (vi)   | Additional Collector (Revenue), Gaya   | - | Member           |
| (vii)  | Concerned Executive Engineer, Road Construction<br>Department, Road Division, Gaya   | - | Member           |
| (viii) | Concerned Executive Engineer, Public Health<br>Engineering Department, Public Health Division, Gaya                                  | - | Member           |
| (ix)   | Concerned Executive Engineer, Rural Works Department,<br>Works Division, Gaya  | - | Member           |
| (x)    | Executive Officer, Nagar Panchayat Bodhgaya  | - | Member           |
| (xi)   | Persons who possess special knowledge or practical<br>experience in town planning appointed by State<br>Government not exceeding two | - | Member           |
| (xii)  | Chief Executive Officer, Bodhgaya Planning Area Authority  | - | Member Secretary |

Name of persons mentioned in sub clause (xi) shall be notified by the Urban Development and Housing Department.

2. Sub Divisional officer, Gaya shall be the Chief Executive Officer cum Member Secretary of this Planning Authority. Office of the Sub Divisional officer, Gaya shall be the office of the Authority at present.

3. The Authority shall exercise the powers prescribed in the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014 for execution of its duties.

This notification will come into force at once.

By order of the Governor of Bihar,

Chaitanya Prasad ,

*Principal Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 751-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>